

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2014 (अग्रहायण 8, 1936)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2014 (AGRAHAYANA 8, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
हैदराबाद-500052, दिनांक 6 नवम्बर 2014
शुद्धि-पत्र

सं. 15011/12/2014-स्था.—श्री जितेन्द्र वेद, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, इंदौर, मध्य प्रदेश का सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के गैर-अनुसूचित स्टाफ में प्रतिनियुक्ति के आधार पर हिन्दी अनुदेशक, ग्रुप- B, राजपत्रित अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में दिनांक 10.09.2014 की अकादमी अधिसूचना में आंशिक संशोधन एवं मध्य प्रदेश प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004 के आदेश संख्या एफ. सं. 1205/332/2014/20-4 दिनांकित 10.09.2014 के अनुसरण में उपर्युक्त अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि को 02 वर्ष के बजाय 03 वर्ष समझा जाएगा। दिनांक 10.09.2014 के अकादमी अधिसूचना का शेष भाग वही रहेगा।

अरुणा बहुगुणा
निदेशक

एल.एन.जे.एन. राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान
दिल्ली-110085, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. 3/14/2014-एलएनजेएन एनआईसीएफएस—श्री निकुंज कुमार, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक-81, दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, संस्कृति विभाग, दिल्ली-110006 को, प्रारंभ में 21.10.2014 (पूर्वाह्न) से रु. 9,300—34,800/- (वेतन बैंड-2) व ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय) में सहायक

पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर एतद्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रतिनियुक्ति अवधि को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार लोकहित में बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

2. प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए श्री निकुंज कुमार का वेतन कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. यह निदेशक, एलएनजेएन एनआईसीएफएस की सहमति से जारी किया जा रहा है।

दीपा पांडे
प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. ओ.दो.4006/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० सुनीता बी, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100/- ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 29.10.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/122/2014—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:

श्री दया राम यादव	31.10.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सेवानिवृत्त

हस्ता./—अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/60/2014—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:

श्री नरेश कुमार जैन	31.10.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सेवानिवृत्त

हस्ता./—अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) अहमदाबाद शाखा कार्यालय, राजस्थान

जयपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/124/2014-15—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:

श्री गौरी शंकर शर्मा	31.10.2014 (अपराह्न) से अधिवार्षिकी पर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सेवानिवृत्त

हस्ता./—अपठनीय
उपनिदेशक

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 11 नवम्बर 2014

सं. ओई (ई एण्ड सी)/ईआईबी/पी/14-15—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती विजयलक्ष्मी एन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.10.2014 (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती सुधा एम	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.10.2014 (अधिवर्षिता)

हस्ता./—अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

सं. ए-32013/3-जेडी(पीवए)/डीपीसी/2014-15/19ए—राष्ट्रपति जी विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर श्रीमती सिलियन नोनकिंगरी (एसटी), उपनिदेशक (प्र. एवं का) (समूह क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर संयुक्त निदेशक (प्र. एवं का) के पद पर रु. 7,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (रु. 15,600—39,100/-) में नियमानुसार वेतन पर इसी विभाग में 19.09.2014 (अपराहन) की तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एस. दास राय
उपनिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

सं. ए-19024/2/2012-प्रशा.-I—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री के. पी. अग्रवाल, वरिष्ठ रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, जयपुर दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

उरवशी कुमार
अवर सचिव

दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं. ए-19024/4/2013-प्रशा.-I—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री के. मनि, वरिष्ठ रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, चेन्नई दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

उरवशी कुमार
अवर सचिव

दिनांक 13 नवम्बर 2014

सं. ए-19024/5/2013-प्रशा.-I—सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री वी. बी. सक्सेना, वरिष्ठ रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर दिनांक 30.09.2014 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

उरवशी कुमार
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. 6(2672)/2014-प्रशा./12928—अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा क्रय एवं भंडार निदेशालय, मुम्बई के सहायक लेखाकार (पीबी-2 : रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-) श्री सुनिल एस. म्हात्रे को दिनांक 14 अगस्त 2014 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में आईआईडब्ल्यू, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई में वेतन बैंड-2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सहायक लेखा अधिकारी के रूप नियुक्त करते हैं।

2. श्री सुनिल एस. म्हात्रे दिनांक 14 अगस्त, 2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

दिनांक 22 अक्टूबर 2014

सं. 6(2678)/2014-प्रशा./13300—राष्ट्रपति, श्रीमती निशा सिंह, आईएएस (एचपी : 1987) को दिनांक 26 सितम्बर 2014 की पूर्वाह्न से 27.04.2016 तक अथवा भावी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव रु. 37,400—67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड वेतन रु. 10,000/- के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

सं. 6(2679)/2014-प्रशा./13301—राष्ट्रपति, श्री आर. ए. राजीव, आईएएस (एमएच : 1987) को दिनांक 01 अक्टूबर 2014 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई में संयुक्त सचिव (वित्त) रु. 37,400—67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड वेतन रु. 10,000/- के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुम्बई-400703, दिनांक 8 नवम्बर 2014

सं. ब्रिट/9/17(3)/जुलाई/2014/108—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'ई' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 01 जुलाई 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 37,400—67,000/- के वेतन बैंड में रु. 8,700/- ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'एफ', के रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. श्री चंद्रशेखर अंबादास खेरोडकर
2. श्रीमती गीता राजगोपालन
3. डॉ. (श्रीमती) किरण सुनिल मेहरा
4. डॉ. (श्रीमती) शुभांगी मनोज मीरापुरकर
5. डॉ. (श्रीमती) वृंदा प्रशांत चौथकंठीवार
6. श्रीमती चंदा अर्जुन
7. श्री जेकब सेबास्टियन
8. डॉ. (श्रीमती) योजना सिंह
9. डॉ. अनूपम माथूर
10. श्री राजेश कुमार

पी. रामकृष्णन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद—500062, दिनांक 17 जुलाई 2014

सं. नाईस/प्रशासन/पेंशन/03/05/001—राष्ट्रपति नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग के ग्रुप 'ए' से संबंधित निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से मूल पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	का.कू.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	पद की पुष्टि	पुष्टि की तारीख
1	6922	एन. भीम	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2007
2	7045	जी. समयुक्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2010
3	6943	इंद्रनील भट्टाचार्य	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2011
4	6945	विक्रांत रायजादा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2011
5	6944	वी. शशीधर गौड	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2011
6	6937	एम. चैतन्या रेड्डी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2011
7	6940	वी. साई प्रशांत	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2011
8	6934	एस. हरज्योत कौर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2011
9	6840	अभिनव चतुर्वेदी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.10.2011
10	6936	एन. हर्षा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2011
11	6933	के. गायत्री	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2011
12	7021	पी. वी. भरत प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.04.2012
13	7055	एम. अनिल कुमार रेड्डी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
14	7058	बिपत्तारन हलधर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
15	7177	शहनाज बानो	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
16	7067	रोली पांडे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
17	7066	आशुतोष शिवहरे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
18	7065	गजेन्द्र मेवाड़ा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
19	7064	तोशी गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
20	7063	प्रशांत कुमार यू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
21	7062	रोहिताश्व शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
22	7061	अरुण आनंद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
23	7056	श्रावणी चितलुरी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
24	7060	ए. के. कृष्णा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
25	7059	रमन कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2012
26	7180	स्तुति कीर्ति पटेल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
27	7188	मनोज दत्तात्रेय मेहतर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013

क्र.सं.	का.कू.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	पद की पुष्टि	पुष्टि की तारीख
28	7189	बी. राजेन्द्र	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
29	7191	योगेन्द्र प्रताप यादव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
30	7190	सत्यदीप	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
31	7179	मंजु मुरली	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
32	7183	अतुल सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
33	7184	अंकित अग्रवाल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
34	7182	चेतन्या वी. एन. एस. के.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
35	7181	गौरव कुमार वशिष्ठ	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
36	7187	के. सिरीशा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
37	7185	शिवांगी अग्रवाल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013
38	7186	शिवशंकर दास	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2013

के. रमेश
प्रशासन अधिकारी (स्थापना एवं पेंशन)

हैदराबाद—500062, दिनांक 5 नवम्बर 2014

सं. नाईस/काप्रभ-II/पदो.14—राष्ट्रपति द्वारा, नाभिकीय ईंधन समिष्ट्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंता ग्रेड ई को दिनांक 01.07.2014 से प्रभावी तारीख से इसी इकाई में वेतन बैंड-3 में रु. 37,400—67,000/— व ग्रेड वेतन रु. 8,700/— सहित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंता ग्रेड-एफ में स्थानापन्न हैसियत में अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं.	नाम (सुश्री/सर्वश्री)
1.	ए. वी. एस. स्वामी
2.	टी. श्रीनिवास राव
3.	के. महेश बाबू
4.	वाई. सन्यासी राजू
5.	डी. श्रीनिवास
6.	एम. नेदुनचेलियन
7.	गौराहरि दास
8.	अमरेश मुकुंद पारसोडकर
9.	कुमार वैभव
10.	विनायक मोहनीराज कन्नाव
11.	जी. ब्रह्मानंदा रेड्डी
12.	नरेंद्र नेरपागार
13.	एन. सभापति
14.	जीतेंद्र भावरानी

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी—III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. 560(5)/4755—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	एम एन बी हास्पिटैलिटी पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2013PTC056982	C16109530
2	श्रीस्टार इन्फोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC039312	C17285461
3	केआरएस मीडिया सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2012PTC048692	C17980863
4	मा फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2010PTC043029	C17999079
5	श्री कैला निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046050	C18065102
6	शारविल इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC044552	C18066324
7	कार्बन पेस्ट लिमिटेड	U24111UP1975PLC004192	C18523803
8	प्राइम पालीफैब प्राइवेट लिमिटेड	U17291UP2011PTC045555	C18773945
9	अमोघ टेक्निकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2009PTC038879	C18828541
10	पैनोप्टिक कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC052065	C18880609
11	रिनीटेक सिनरजिसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058277	C18913574
12	एपेक्स मरकन्टाइल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड	U51396UP1998PTC023609	C18995753
13	सइबर होम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058057	C19229327
14	ग्लोब इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC051365	C19321405
15	एस्ट्रल इन्फ्रावेन्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046332	C19321488
16	श्री सेवक इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2006PTC032080	C19383132
17	हाईटेक इन्फ्राइन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC046370	C19462282
18	वोलेक्स साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC057472	C19498989
19	एक्सिस टेकसाफ्ट सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2009PTC038491	C19575323
20	सनीसिस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2012PTC051723	C19632793
21	रीगल माइक्रोसिस प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2003PTC027230	C19890250
22	न्यूरान साफ्टसेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC056882	C19975572
23	ओमेक्स लाजिस्टिक्स सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U60231UP2012PTC049631	C20002341
24	शिवा वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2011PTC046439	C20152484
25	कायाट्रिक्स टेकनोलाजिसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC048063	C20297263
26	ए पी पैन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U16000UP2008PTC034717	C20445193
27	श्री बांके बिहारी ब्रेड एण्ड बेकरी प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2011PTC046621	C20494951
28	त्रिवोली बैंकेट्स एण्ड गार्डेन्स प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2013PTC059820	C20561452
29	रेडियेंट नेट सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC047668	C20764320
30	श्री बालाजी लेड एलायस एण्ड पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC054222	C20865937
31	बिरमा बेवरेजेस एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2011PTC046053	C20920245
32	एक्स्ट्राकेयर सिक्यूरिटी एण्ड फायर सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2011PTC044206	C20947768
33	काशी आर्युवैदिक प्राइवेट लिमिटेड	U33119UP2009PTC037233	C21050257

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
34	रियल इण्डिया हाउसिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2013PLC060340	C21217435
35	प्रथम प्रिंटवेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC048912	C21346069
36	सुपरपाली प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	U25209UP1969PTC003277	C21613385
37	इनान्दी माल्ट विहस्की कम्पनी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U52208UP2009PTC037622	C21843396

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. 560(5)/4756—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर
1	नौगरिया एग्रो फारेस्ट्री प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड	U01122UP2004PTC028903
2	मुगल प्लास्टर प्राइवेट लिमिटेड	U26952UP2004PTC028892
3	श्री प्रगया बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028893
4	ग्रीन विच एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U19123UP2004PTC028894
5	आदिनाथ हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2004PTC028891
6	पॅल इण्डिया इन्फोवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028890
7	लाइफ वीजन सेल्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028882
8	सत्यम शिवम सुन्दरम फेब्रीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U26964UP2004PTC028869
9	ज्वीटर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028875
10	4 डिमेंशन ट्रवेल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2004PTC028863
11	पुष्पलता आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	U63022UP2004PTC028868
12	सिसौदिया इनवर्ट शुगर प्राइवेट लिमिटेड	U15421UP2004PTC028854
13	रिशि पूजा इनरजी टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U29119UP2004PTC028846
14	पारशिव फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028843
15	जीमिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028838
16	कलांचल फिल्म एण्ड म्यूजिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U92114UP2004PTC028823
17	डी आर पी एस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2004PTC028820
18	ड्रीमवर्ड ई सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028821
19	कोरल मैकरेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028810
20	डदय मार्कफिन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028812
21	ग्रीन हाउस बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028813
22	सुहिमी कन्सलटेंट्स एण्ड सलुशनस प्राइवेट लिमिटेड	U74140UP2004PTC028809
23	एन एल जी केमिकल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U51434UP2004PTC028796
24	डान सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028792
25	सुपर डाटा प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	U80221UP2004PTC028795
26	स्वर्णिम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028788

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर
27	अल मिजान फ़ोजन फूडस प्राइवेट लिमिटेड	U15139UP2004PTC028791
28	श्यामा लाइफलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028782
29	इमेजिनेशन एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2004PTC028777
30	एस एस पेट्रोनेट आयल्स एण्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड	U51410UP2004PTC028753
31	डी बी एस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028747
32	नवग्रह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028748
33	प्रेक्टिकल मरकन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028733
34	विशम्भर इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U10102UP2004PTC028728
35	श्री शोभाराम फूडस प्राइवेट लिमिटेड	U15135UP2004PTC028719
36	इन्दू इन्फोकाम प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028584
37	सप्तरिशी मरकन्टाइल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028714
38	सुस्ती इंश्योरेंस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U66030UP2004PTC028716
39	न्यू सम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028718
40	नीलकमल हार्डटेक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028709
41	आर्यन्स मरकन्टाइल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028704
42	मिक्रो इनफोसिस कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80302UP2004PTC028701
43	गनपति इण्टरटैमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U92141UP2004PTC028682
44	स्वनिशा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028680
45	रेक्समेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028678
46	कुनिका मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52334UP2004PTC028666
47	कृपा शंकर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51432UP2004PTC028639
48	सुक्रति फिनकाम प्राइवेट लिमिटेड	U65922UP2004PTC028641
49	आशना सेरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U26914UP2004PTC028644
50	एराइजिंग फूचर इन सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028636
51	डायमण्डप्रिज्म एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U02001UP2004PTC028637
52	कैमरा आई फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U92112UP2004PTC028631
53	आलोक हाउसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028632
54	शांती एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74300UP2004PTC028620
55	सेवेन स्टार कान्सेप्टस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028571
56	आसरा एसोसियेटेड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U29308UP2004PTC028573
57	अम्रत हरबल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2004PTC028578
58	आइडियल सरकुलेशन वे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028534
59	रिब्रु ब्रुश कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	U24229UP2004PTC028536
60	गति पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड	U50500UP2004PTC028541
61	भागो सिक्वोरिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2004PTC028517
62	मौयास मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028521
63	रेसोमेट्रिक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74130UP2004PTC028522
64	आशू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028526
65	विजेता सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028512
66	सेल्संस चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	U65992UP2004PTC028514

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर
67	श्री हरदोई बालाजी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	U10101UP2004PTC028504
68	आशीष वेद नमन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड	U50500UP2004PTC028500
69	सत्यम शिवम सुन्दरम सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028501
70	वैष्णो सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2004PTC028498
71	गोल्डेनवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028484
72	विजयन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP2004PTC028477
73	अंक्यूस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028460
74	श्रीराम टेक्नो बियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U27108UP2004PTC028434
75	कैरियर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028427
76	अम्बा मल्टी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028418
77	प्रग्या फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड	U92111UP2004PTC028419
78	मिरर ट्रेवल्स एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2004PTC028411
79	प्रिंस कार्पेटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2004PTC028400
80	गंगा आक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड	U23201UP2004PTC028396
81	हमारा समग्र जीवन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028387
82	डालर स्टीलस प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2004PTC028384
83	वाष्पेय डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028373
84	सुखबासी लाल मिश्री लाल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17212UP2004PTC028369
85	उषा इनफोसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2004PTC028370
86	स्काईलैब कम्यूनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2004PTC028346
87	जानकी टेरेस्म इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2004PTC028347
88	श्री शेरे पंडित कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2004PTC028348
89	घमाका इन्डिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028349
90	कंसैरटियम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028339
91	ट्रिसाम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028343
92	आई साइट इण्टरटैमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U92113UP2004PTC028334
93	इनफो वेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2004PTC028330
94	सी डी एस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2004PTC028320
95	सिचौन सिल्क प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2004PTC028327
96	जे एम स्टील एण्ड एलायस प्राइवेट लिमिटेड	U27104UP2004PTC028315
97	रवी पम्पस एण्ड जेनरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29119UP2004PTC028310
98	सन क्रेडिट सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U65192UP2004PTC028313
99	कानपुर पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U22212UP2004PTC028305
100	एस एम एस प्रोटेक्शन एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2004PTC028302
101	राजेश मसाला प्राइवेट लिमिटेड	U15495UP2004PTC028300
102	नेचुरल सेल्स कन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028291
103	स्वयं सिद्धि इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U67200UP2004PTC028283
104	सी डी एस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028275
105	टेलीसिया केम एण्ड फूड्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51229UP2004PTC028265
106	ड्रीम विन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2004PTC028256

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर
107	आर एस एम हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP2004PTC028254
108	जे एण्ड जे सिटी क्लब प्राइवेट लिमिटेड	U55201UP2004PTC028246
109	दि इन्योर टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028240
110	जीनियस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51399UP2004PTC028228
111	आई स्पाई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2004PTC028229
112	धनश्याम मरकन्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028096
113	नार्दन एकेडमी आफ हायर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80301UP2004PTC028224
114	ग्लास सी बी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2004PTC028214
115	इण्टरग्लोब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	U62100UP2004PTC028212
116	नबी करीम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028207
117	प्रभू दयाल एण्ड ब्रदर्स बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2004PTC028203
118	गौरव एण्ड गौरीश एसोसिएट्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U19116UP2004PTC028197
119	भवानी रियल्टेस एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2004PTC028192
120	मधुर इण्डिया डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2004PTC028184
121	फ्रैण्स एमबीशन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028182
122	कुडोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2003PTC028179
123	फार्मस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2003PTC028169
124	ओरिजिन साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028165
125	बी आर टार्यस प्राइवेट लिमिटेड	U25112UP2003PTC028157
126	मास्टरमाइण्ड प्रोटेक्शन गार्ड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U74920UP2006PTC031819
127	अरेश एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U51229UP2003PTC028144
128	महादेव पब्लिशर्स एण्ड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U22122UP2003PTC028145
129	एक्सेल इन्फोवेयर प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2003PTC028131
130	के एल टी इण्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	U18101UP2003PTC028133
131	गोल्डेन चांस सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028119
132	इन्स्ता कोर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U65999UP2003PTC028122
133	नाकुर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74959UP2003PTC028114
134	कैप्स्टोन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028115
135	एन यू ब्राइट सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028110
136	कैटेलिस्ट एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74110UP2003PTC028111
137	गुपानी एग्रो (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U15499UP2003PTC028113
138	अपना खुशाल बाजार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028097
139	देववंशी मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2003PTC028098
140	दिबोनेयर किड्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	U95000UP2003PTC028099
141	इण्डिवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51397UP2003PTC028087
142	ओशेल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U31300UP2003PTC028083
143	एस जी आर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52322UP2003PTC028075

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर—208002, दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. 560(3)/उ.ख./597—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एक महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी :—

Srl No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	बिसडो इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2011PTC000003	C29643350
2.	संजय हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	U85100UR2010PTC033165	C30450191
3	मसूरी नेचर क्लब प्राइवेट लिमिटेड	U93000UR2012PTC000126	C30803928
4.	अनुजा सॉफ्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UR2009PTC032779	C31643794
5.	पर्वातचल मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2009PTC033018	C31840069

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक
उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. क.र./प.ब./एफटीई/560/2014—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	सी.आई.एन.	कम्पनी का नाम
1	U64204WB2012PTC175930	मिशनक्यू एंड जेआर इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
2	U51109WB1994PTC064523	मोहता केमोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
3	U24132WB2011PTC161186	श्रीजी ऑक्साइड प्राइवेट लिमिटेड
4	U45400WB2013PTC195537	हेन्ली कन्स्ट्रक्शन एंड कोंक्रेट प्राइवेट लिमिटेड

सौरभ गौतम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुडुच्चेरी—605011, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. 3(161)/560(5)/2014—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2633	र + ज एंडेएवोर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	2453	समिक्स नुटरससीएनसेस प्राइवेट लिमिटेड
3	2520	आइ ओपनर क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

सी.म. कार्ल मार्क्स
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नई, दिनांक 10 नवम्बर 2014

सं. 3726 से 94302 तक/560(5)/एफटीई 2011—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	3726	मद्रास पास्पेट्स मनुफेक्चरर्स लिमिटेड
2	10031	रपिकॉन ईक्युप्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
3	10853	वान्बी इणवेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
4	12355	वान्बि प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग प्रैवेट लिमिटेड
5	13142	टरकेश वीकुम्सी जेल्लेरी एण्ड जेम्स एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
6	13474	एस.एम.सी.एस. लिमिटेड
7	16474	मेडिप्लान्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
8	16536	बालाजी रिक्लैम्स प्रैवेट लिमिटेड
9	17898	जेयपूर सुगर फैनान्स एण्ड इणवेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	19733	टफलैट ग्लास प्रैवेट लिमिटेड
11	20088	फॉर्टेन कणस्युमेर अप्लैयन्सेस लिमिटेड
12	20138	कालि एसआरपी टेक्नोलॉजिज प्रैवेट लिमिटेड
13	20704	हिरूसा कार्मेटिक्स प्रैवेट लिमिटेड
14	22216	सेन्टेम सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
15	22593	अरसी एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
16	23372	वी यार मिनरल्स प्रैवेट लिमिटेड
17	25040	बिल्डिंग मेटिरियल्स & ईक्युप्मेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
18	25041	ईलेक्ट्रानिक्स & कम्प्युटर्स इण्डिया लिमिटेड
19	25623	गार्डिनेर लान्डस्केप प्रैवेट लिमिटेड
20	26397	ग्राफैन केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
21	27142	फुलोरिन्टिया फेशन्स लिमिटेड
22	28659	एजिएस इरिगेशन प्रैवेट लिमिटेड
23	28670	राज कृष्णा पेपर प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
24	28914	धनलक्ष्मी अमुस्मेन्ट्स & हेल्थ सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
25	29301	धनलक्ष्मी कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
26	29954	अभिडिव् इणवेस्टमेन्ट्स & सेक्युरिटिस प्रैवेट लिमिटेड
27	30291	कोरमन स्नेरजी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
28	30918	एम्कॉर्प फैनान्स लिमिटेड
29	31134	अशिका लेदर्स प्रैवेट लिमिटेड
30	32398	श्रीनिती टेक्सटाइल्स प्रैवेट लिमिटेड
31	33150	जिजस इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
32	33433	ओरंच सेक्युरिटीस प्रैवेट लिमिटेड
33	34684	मद्रास कोटिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
34	34792	जी वी एन फाम्स पी लिमिटेड
35	35303	श्री सॉय सरवीस्टु अप्पाट्रमेन्ट्स एण्ड हास्पिटैलिटी प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
36	36663	इकोन्तम कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
37	36922	वॉइसवेयर सिस्टेम्स लिमिटेड
38	37108	हरिहर हारचेट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	37457	टार्गेट केस टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
40	37693	बफना ईलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
41	38125	थामोथरण फेब्रीक प्राइवेट लिमिटेड
42	38340	ब्रैड् इन्जीनियरिंग (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
43	38451	अमीर्द& जे बिल्डर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
44	39814	इन्नोविशन साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
45	40607	जीएनजी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
46	41205	बूम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
47	41359	रीडा मरैन प्राइवेट लिमिटेड
48	41828	अडवांस्डु कम्फोर्ट ईलेक्ट्रानिक सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
49	41831	शरवणा टानिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
50	42069	अफीनिटी ग्रानैट्स & मारबेल्स प्राइवेट लिमिटेड
51	42555	जस्टीस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
52	42687	श्री वैध्या ईलक्टिकल ट्रान्सफार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड
53	42849	मिल्लीनियुम लैन प्राइवेट लिमिटेड
54	43199	फोन्कोर्ड कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
55	43296	जाब्स डीबी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
56	43329	एस.वी.आर. फाम्स लिमिटेड
57	43362	अक्सेस इन्टरनेट शाप इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
58	43507	जे.एल. इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
59	44452	सीएस साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
60	45120	साम्को साफ्ट लिमिटेड
61	45191	बिसिनेसओरियेन्टेड साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
62	46749	वुडप्लै (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
63	47283	वेक्स सिस्टेम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
64	47739	परफेक्ट स्टीच गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
65	48236	इमाजिन (इण्डिया) साफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
66	49052	मिन्टका कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
67	49061	मस्टांग कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
68	49456	सरवणा स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
69	49747	सदर्ण ग्रैन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
70	49748	आर एस आर बेस्ट कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
71	49918	डक्केर रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
72	50088	अप्पोलो टेक्सटैल्स प्राइवेट लिमिटेड
73	50133	ब्योटेक इक्युपेन्ट्स एण्ड सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
74	50299	टीएमजी आग्री सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
75	50352	सी एक्सप्रिस लैन्स प्रैवेट लिमिटेड
76	50812	अलंकार कमर्शियल प्रैवेट लिमिटेड
77	50999	श्री महामेरू लाजिस्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड
78	51051	अल्-फला डैयक्नास्टिक सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड
79	51077	एम वी जी फाँडेशन प्रैवेट लिमिटेड
80	51108	एसएस कम्बैन्स इंजिनियरिंग वर्क्स प्रैवेट लिमिटेड
81	51210	फुशन फुड कॉन्सेप्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
82	51409	अलैइड हैजीन & लैफस्टैल प्राडेक्ट्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
83	51842	डेल-वोन एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
84	51919	टाल प्रीसिशन पाट्स लिमिटेड
85	52011	है-ट्रान्स इण्डिया कणसल्टिंग सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
86	52012	गोस्पेल बुक रूम प्रैवेट लिमिटेड
87	52252	बे प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
88	52320	इन्टीग्रेटेड डाकुमेन्टेशन कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
89	52433	अल् महा ज्वल्लेर्स प्रैवेट लिमिटेड
90	52585	रियल नेट सोल्युशन्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
91	52979	सिंगानल्लूर हेरिटेज हॉउस प्रैवेट लिमिटेड
92	53617	क्रिया इन्फोसिस प्रैवेट लिमिटेड
93	53813	सिनिमा पारडिसो इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
94	53848	एजीएस होटल्स & रिसाट्रस प्रैवेट लिमिटेड
95	54195	स्नाप स्कैब इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
96	54313	बॉन्डवाली टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
97	54421	साफट्ट्रन्ड टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
98	54541	किटसाफ्ट कणसल्टन्ट लिमिटेड
99	54721	ए.आर. वेल्ड टेक प्रैवेट लिमिटेड
100	55262	फूट प्रिन्ट साफटवेयर प्रैवेट लिमिटेड
101	55534	ईरिका असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड
102	55650	इन्टीमेट मनुफैक्चुरिंग टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
103	55720	ईफोक्कस बिसिनेस सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
104	55731	पिगासेस टेलिकॉम सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
105	55888	हिटउन सुपर मारकेट प्रैवेट लिमिटेड
106	55913	एरीस शेर्स एण्ड स्टाक्स प्रैवेट लिमिटेड
107	56190	रिब्रान प्रमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड
108	56209	एपीआर ब्रतर्स इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
109	56302	विक्रम हरी असोसियेट्स एण्ड सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
110	56900	तुलिप अरोमेटिक्स एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
111	56934	एसीएस आटोपार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
112	57047	ग्रेस फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
113	57305	दिमत कणसल्टेन्सी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
114	57572	ओटेक्स कारगो प्रैवेट लिमिटेड
115	57578	टेरा सिन्टिटिक्स प्रैवेट लिमिटेड
116	57668	ओपिरॉन ब्योटेक प्रैवेट लिमिटेड
117	58017	हरि सॉय रियल्टिस प्रैवेट लिमिटेड
118	58057	ए पी के ट्रान्सपोट्र प्रैवेट लिमिटेड
119	58223	स्कैलान्ड फाम्स & रिसाट्रस प्रैवेट लिमिटेड
120	58301	पाल्मा अनालिटिक्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
121	58467	टेक्सटैल इण्डिया फेशन मॉल प्रैवेट लिमिटेड
122	58514	क्रीविन्द कम्युनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
123	58643	टी एम हारतोपेटिक्स प्रैवेट लिमिटेड
124	58814	इडेलवेइस रिसार्ट्स एण्ड होटल्स प्रैवेट लिमिटेड
125	59004	टेल आईसी मल्टीमिडिया अडवरडैसिंग सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड
126	59076	हानि बी पब्लिशर्स प्रैवेट लिमिटेड
127	59247	मेक्नेट्रान टेक्नोलाजी (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
128	59338	आईआईपीई सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड
129	59555	ए.एल.आर.के. इन्टीरियर्स प्रैवेट लिमिटेड
130	59670	वी सी फिलेवर्स प्रैवेट लिमिटेड
131	59689	वेंकट कॉपोनेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
132	59745	विस्वास इन्टरनेशनल ज्वल्लेर प्रैवेट लिमिटेड
133	59838	तमिलनाडु विन्ड पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
134	60319	अरन्तांगी केमिकल्स (युनिट्-II) प्रैवेट लिमिटेड
135	60334	आर स्कोयर इन्फरमेशन टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
136	60545	श्री परासक्ती टेक्सटैल मिल्स प्रैवेट लिमिटेड
137	60547	गोल्ड क्रिस्ट हौसिंग प्रैवेट लिमिटेड
138	61443	सेडना लैफ सैन्ड्स प्रैवेट लिमिटेड
139	61565	जीएम-केम्ब इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
140	61639	शालोम अब्रेसिक्स प्रैवेट लिमिटेड
141	61873	ई-वोल्व माक्स सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड
142	61989	जेट्स टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
143	62076	ट्रान्सग्रीन्स फार्मिंग प्रैवेट लिमिटेड
144	62169	सन्मार्क एन्टरप्राइस प्रैवेट लिमिटेड
145	62502	ओन ओ ओन फ्रीमाट्र प्रैवेट लिमिटेड
146	62547	जेप्पियार फिस्लान्ड प्रैवेट लिमिटेड
147	62648	पैरा टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
148	62687	जेन ईको स्ट्रक्चर्स प्रैवेट लिमिटेड
149	62775	अनेकर साल्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
150	62800	अरमावेन कणसल्टन्सी प्रैवेट लिमिटेड
151	62846	मेस्ट्रो होम नीट्स प्रैवेट लिमिटेड
152	63105	टिगान टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
153	63164	होम्नीक्वीटी कणसल्टिंग प्रैवेट लिमिटेड
154	63560	रासी होम्स प्रैवेट लिमिटेड
155	63585	असोसियेटेड वेब होल्डिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
156	63695	नीती रियल एस्टेट प्रैवेट लिमिटेड
157	63874	स्टारलेब सैन्टीफिक इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
158	63965	एसआरसी स्पिन्नेर्स प्रैवेट लिमिटेड
159	64455	निवास फौन्डेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
160	64456	निवास इन्फ्रा प्राजेक्ट्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
161	64567	एल'मेन स्कूल आफ मोटारिंग प्रैवेट लिमिटेड
162	64583	प्लाकस्मिन्त मशिनिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
163	64642	राय्ला होल्डिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
164	64695	इयन इंजिनियरिंग एण्ड एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
165	64783	सुसाहाक एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
166	64857	जिनाथ इंजिनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
167	65024	एटीई कण्ट्रोल सोल्युशन प्रैवेट लिमिटेड
168	65425	आध्यना लैफ सेन्सेस प्रैवेट लिमिटेड
169	65624	सेन्ट्रल टॉवर हास्पिटालिटी सर्वीसेस (चेन्नई) प्रैवेट लिमिटेड
170	65894	एमकेएस आईटी ड्रॉम प्रैवेट लिमिटेड
171	65904	श्री विसाकन एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
172	65936	माप एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
173	65963	ब्लूजून इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड
174	66099	युनारिस हेल्थकेयर प्रैवेट लिमिटेड
175	66178	प्रेड बिपिओ प्रैवेट लिमिटेड
176	66326	मपि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राजेक्ट्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
177	66388	साम्प्रो इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
178	66454	ट्रैसेन सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
179	66544	पारमार फोरेक्स प्रैवेट लिमिटेड
180	66566	एल& टी सिरुच्चेरी प्रापरटी डेवलपर्स लिमिटेड
181	66602	ईटीए स्टार वेस्टर्न आठो पार्ट्स सेन्टर प्रैवेट लिमिटेड
182	66707	न्यूरेट फौंडेशन इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
183	67026	इन्टेलिवोर्क्स एजुकेशन सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
184	67333	कीटेक एनर्जी कणसल्टन्सी प्रैवेट लिमिटेड
185	67442	सरस्वती साफ्टवेयर सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड
186	67520	शुभन मेडिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
187	67797	रेस्ट लान्ड अक्कामोडेशन प्रैवेट लिमिटेड
188	67814	ट्रै इन्फारमेक्स सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड
189	67819	क्यूएमजी मिनरल्स प्रैवेट लिमिटेड
190	67877	श्री ज्योति सिमेंट्स लिमिटेड
191	67972	एचआरसी फेसिलिटी मैनेजमेन्ट सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
192	68186	सीएस एस्टेट्स एण्ड वेंचर्स प्रैवेट लिमिटेड
193	68294	न्यूमेरिक साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
194	68348	रेडईव टेक्नोलाजी कणसल्टिंग प्रैवेट लिमिटेड
195	68350	होटल मेम्फिस प्रैवेट लिमिटेड
196	68357	कान्टॉन एफएमसीजी & एक्सिस प्रैवेट लिमिटेड
197	68467	मीरा इन्फोवे प्रैवेट लिमिटेड
198	68525	अक्सीड साफ्ट प्रैवेट लिमिटेड
199	68553	श्री जेयज्योति इन्फ्रा डेवलेपर्स प्रैवेट लिमिटेड
200	68638	ए.आर.टेलीकॉम प्रैवेट लिमिटेड
201	68711	केयरबीकॉन प्रैवेट लिमिटेड
202	68714	स्डरोवी मेडिका प्रैवेट लिमिटेड
203	68753	कॉरप्टेक साफ्ट सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
204	68939	ग्रीन शक्तिम् इन्जिनियर्स प्रैवेट लिमिटेड
205	69053	सेखर एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
206	69230	न्यू एडीशन कम्प्युटर सिस्टम्स प्रैवेट लिमिटेड
207	69411	एतिरोली न्यूसपेपर प्रैवेट लिमिटेड
208	69441	स्माट्र ग्रीन पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
209	69527	जीपियर विन्ड एनेरजी प्रैवेट लिमिटेड
210	69535	औरो मीरा ब्योमास प्लान्टेशन प्रैवेट लिमिटेड
211	69542	स्वस्टिक & कौसिक बिल्डिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
212	69544	औरो मीरा ब्योमास एनेरजीस प्रैवेट लिमिटेड
213	69550	टेक्नोटाब मनुफेक्चरिंग (चेन्नई) लिमिटेड
214	69686	खिवाज विन्ड फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
215	69705	ईमेज़ फुशन इन्फोटेक प्रैवेट लिमिटेड
216	69726	औरो मीरा प्लान्टेशन फाम्स कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
217	69854	वेस्टर्न आठो रेस प्रैवेट लिमिटेड
218	69928	क्लीन रीच रिसर्च प्रैवेट लिमिटेड
219	70209	आरवीए बिसिनेस प्रैवेट लिमिटेड
220	70362	क्युन्च टेक्नोलाजी सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
221	70372	इण्डरक्षी फार्मा प्रैवेट लिमिटेड
222	70423	फेरशवे फूड्स प्रैवेट लिमिटेड
223	70631	अतिदि इन्फ्राटेक प्रैवेट लिमिटेड
224	70767	डिएनआर शिपिंग प्रैवेट लिमिटेड
225	70786	तिरुक्कुवलै एनेरजी प्रैवेट लिमिटेड
226	71154	आल्फा मेडिकलैम टीपिए प्रैवेट लिमिटेड
227	71252	ई-कार्स सरवीसेस & सोल्युशन्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
228	71362	किन्बान सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
229	71370	एसके लटेक्स प्रैवेट लिमिटेड
230	71689	पिन्नी सीएफएस लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
231	71806	इमेर्ज इण्वेस्टमेंट्स सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
232	71817	अर्था42 इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
233	71835	स्कास लैटिंग प्राइवेट लिमिटेड
234	72214	एचआरसीएल प्रोजेक्टशन्स प्राइवेट लिमिटेड
235	72347	अवणी इमाजिनेशन एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
236	73048	मस्टोडन इन्फोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
237	73124	नेटवर्क्स स्टूडियो (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
238	73135	युपोरिक लेरनिंग सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
239	73348	इनास्पिर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
240	73537	रुकमत एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
241	73625	सीएफआई टोनर्स प्राइवेट लिमिटेड
242	73726	स्वप्ना मित्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
243	74042	एलबीए अलुमिनियम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
244	74058	सिल्वर टालेन्ट मैनेजमेन्ट & कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
245	74236	सिद्धाता होलिस्टिक हिलिंग प्राइवेट लिमिटेड
246	74534	अल्फेक्स ट्रेडिंग एण्ड सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
247	74639	साक्र इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
248	74925	कॅन्टार केमिकल्स एण्ड इन्टरमिडियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
249	75000	टेक कलिबेर आईटी सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
250	75206	वी-इन्फ्रीनिट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
251	75509	चिमीरा लबोरटोरिस प्राइवेट लिमिटेड
252	75544	वछरा रि-रोल्लिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
253	75645	अरबेल्ला कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
254	75717	यन्त्रा इन्जिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
255	75940	देवेंद्रा बाक्सेल प्राइवेट लिमिटेड
256	75950	एडीजे इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
257	75994	श्री आन्डाल रंगमनार कॉयर् प्राइवेट लिमिटेड
258	76277	काप्स इन्जीनेर्स एण्ड इन्टरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
259	76430	कोरोना कॉर्प्स प्राइवेट लिमिटेड
260	76520	ए.आर. स्क्रीन प्राइवेट लिमिटेड
261	76635	वीकान्सी प्राजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
262	76758	वेर्सा वेंचर्स & इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
263	76859	बे लीफ़ पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
264	76901	राफैल्स फैनान्शियल अडवैसरी प्राइवेट लिमिटेड
265	76910	साफ्टियन ग्लोबल सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
266	76973	जेप्पियार पेक्केजिंग प्राइवेट लिमिटेड
267	77054	फारचून कॉरपोरेट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
268	77069	रीमा पब्लिशिंग & मिडिया प्राइवेट लिमिटेड
269	77171	साप पॉवर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
270	77184	सन्वेल ग्रीन पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
271	77541	चक्रा होम केयर प्रैवेट लिमिटेड
272	77681	बी सी बिल्डिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
273	78226	पून्मल्ली लाजिस्टिक्स प्रैवेट लिमिटेड
274	78343	अवनीर इलेक्ट्रीकल कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
275	78742	गिफ्टईसी सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
276	78745	आरडैमेन्सियो टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
277	78787	ईका इन्टीरियर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
278	79090	जेकेवी टेक्नोलाजीस & कणसल्टिंग प्रैवेट लिमिटेड
279	79302	ज्यो इन्फ्रा इंजिनियरिंग टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
280	79324	हॉटी प्रापरटीस प्रैवेट लिमिटेड
281	79514	बेटा इन्जिनियरिंग कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
282	79602	धार्ना साफ्टवेयर इन्वोवेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
283	79734	सरस्वती ब्रीडर्स प्रैवेट लिमिटेड
284	80014	विद्वताला कान्क्रिट प्रैवेट लिमिटेड
285	80144	बेस्सी'स रेस्टोरैन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
286	80329	मैक्रोक्लौड टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड
287	80376	श्री रमणा फाम् एण्ड रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
288	80501	एमएसआर डेन्टल सरजेरी प्रैवेट लिमिटेड
289	80962	प्रेम एसएनजे इंजिनियरिंग एण्ड कणस्ट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड
290	81075	3 डिक्रीस टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
291	81198	जीआईसी सीनेट टेक प्रैवेट लिमिटेड
292	81418	केआरकेएम प्रापरटिस प्रैवेट लिमिटेड
293	81488	अगम् क्रियेटिव स्टूडियोस प्रैवेट लिमिटेड
294	81577	क्रिप्टॉन एन्टरटेन्मेन्ट प्रैवेट लिमिटेड
295	81613	स्कै पेस्ट कण्ट्रोल प्रैवेट लिमिटेड
296	81974	ऐडटस हेल्थकेयर कम्युनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
297	82066	सीएसए कणस्ट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड
298	82935	बेस्ट फिट कणसल्टिंग प्रैवेट लिमिटेड
299	83155	टेल लाब कण्ट्रोल प्रैवेट लिमिटेड
300	83396	अशलर रियल्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
301	83500	काट् 2000 प्राडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
302	83773	प्रोबस इन्फरमेशन सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
303	84065	इफिक्सिस लाजिस्टेक प्रैवेट लिमिटेड
304	84102	आई-क्यूब टेक प्रैवेट लिमिटेड
305	84180	मेडब्रीगेड हेल्थकेयर इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
306	84261	ओजास टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
307	84423	सेवन स्टार ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड
308	84436	सरोमा इम्पोर्टर्स प्रैवेट लिमिटेड
309	84569	नार्दन टेक्नो सरवे प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
310	84695	ऐस्वासु टेक्नोलाजीस प्राैवेट लिमिडेड
311	84706	वल्लीकन्दन चिट् फण्ड्स प्राैवेट लिमिडेड
312	85218	जेओई.आर.पी. रब्बर इण्डस्ट्रीस प्राैवेट लिमिडेड
313	85307	कनोपस कणसल्टेन्ट्स & सरवेयर्स प्राैवेट लिमिडेड
314	85476	रफ़लेस कॉफ़स एजुकेशन मेनेज़मेन्ट प्राैवेट लिमिडेड
315	85526	आहिरा टेक्नोलाजीस प्राैवेट लिमिडेड
316	85673	फ़स्ट एन्विरॉन्मेन्टल मेनेज़मेन्ट इण्डिया प्राैवेट लिमिडेड
317	85947	कॉर्ड मिडिया प्राैवेट लिमिडेड
318	85972	असाहैटेक ट्रेडिंग प्राैवेट लिमिडेड
319	86185	ट्राक्स मिडिया सोल्युशन्स प्राैवेट लिमिडेड
320	86289	ईफ़ेक्चुवल टेक्नोलाजी & सोल्युशन्स प्राैवेट लिमिडेड
321	86368	सन्जीवणश्री हेर्ब्स प्राैवेट लिमिडेड
322	86472	डुनिस इन्टरनेशनल प्राजेक्ट्स प्राैवेट लिमिडेड
323	86644	रीवा कपिटल सरवीसेस प्राैवेट लिमिडेड
324	86672	ओटीसी वेल्नेस प्राडेक्ट्स प्राैवेट लिमिडेड
325	86686	डी'शैन डिजिटल मारकेटमेकर्स प्राैवेट लिमिडेड
326	86793	चेन्नई ऐयन एण्ड स्टील पौडर्स लिमिडेड
327	87055	टीटी कारगो मेनेज़मेन्ट सरवीसेस प्राैवेट लिमिडेड
328	87150	मियाबी होटेल्स प्राैवेट लिमिडेड
329	87483	आईसीडी फ़ेशन्स प्राैवेट लिमिडेड
330	87517	ब्लाक मीडाँस हेयर रिपिलेसमेन्ट प्राैवेट लिमिडेड
331	87690	सिन्टलेक्ट हेल्थकेयन सोल्युशन्स प्राैवेट लिमिडेड
332	87955	जेम्स & मिनरल्स इण्डिया प्राैवेट लिमिडेड
333	88305	युनिक्स मनुफ़ेक्चुरिंग इण्डिया प्राैवेट लिमिडेड
334	88454	वैयोक्सी हेल्थकेयर प्राैवेट लिमिडेड
335	88790	कापेल्ला अड़वैसरी प्राैवेट लिमिडेड
336	90223	कोक एण्ड कोल प्राडेक्ट्स प्राैवेट लिमिडेड
337	90225	फ़ेडोरा इम्पेक्स प्राैवेट लिमिडेड
338	90245	मैन प्रोसेसिंग एण्ड होल्डिंग्स प्राैवेट लिमिडेड
339	90475	आकाश सोलार इण्डिया प्राैवेट लिमिडेड
340	91089	आकाश मिडिया प्राैवेट लिमिडेड
341	91817	ओयूएसएस फ़िन्सर्व इण्डिया प्राैवेट लिमिडेड
342	91910	रिच नेचूर वे इण्डिया प्राैवेट लिमिडेड
343	92331	ओईआरएस एन्टरप्राैसेस प्राैवेट लिमिडेड
344	93270	वेलोसियस नेटवोर्क्स (इण्डिया) प्राैवेट लिमिडेड
345	94302	कोमला'स एफ& बी प्राैवेट लिमिडेड

के. लता परिमलवदना
उप कम्पनी पन्जीयक
तमिलनाडु

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 8th October 2014

No. F. 20/2014/SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to post Shri D.P. Walia, Deputy Registrar (Shorthand) (Ex-Cadre) as Deputy Registrar in the unified cadre post, with effect from 26-09-2014.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

The 10th November 2014

No. F. 20/2014-SCA(1)—Ms. Usha Sharma, Branch Officer has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of October 31, 2014 on her attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

New Delhi, the 11th November 2014

No. F. 20/2014-SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Chirag Bhanu Singh, an Officer of Himachal Pradesh Higher Judicial Service and LR-cum-Principal Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla as Registrar, Supreme Court of India, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 10th November, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad – 500 052, the 6th November 2014

CORRIGENDUM

No.15011/12/2014-Estt.—In partial modification of this Academy notification of even number dated 10.09.2014 regarding appointment of Shri. Jitendra Ved, Lecturer, Govt. Higher Secondary School, Indore, Madhya Pradesh as Hindi Instructor, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial in the SVP National Police Academy, Hyderabad on deputation basis and in pursuance of Madhya Pradesh Administration, School Education Department, Ministry, Vallabh Bhavan, Bhopal-462 004 order F. No.1205/332/2014/20-4 dated 10.09.2014, the deputation period of above said officer may be read as 03 (three) years instead of 02 (years). Remaining part of this Academy notification of even number dated 10.09.2014 will remain same.

ARUNA BAHUGUNA
Director

LNJN NATIONAL INSTITUTE OF CRIMINOLOGY AND FORENSIC SCIENCE

Delhi-110085, the 30th October 2014

No 3/14/2014 LNJN NICFS—Shri Nikunj Kumar, Library and Information Assistant-81, Delhi Public Library, Department of Culture, Delhi – 110 006 is hereby appointed as Assistant Library and Information Officer in the LNJN National Institute of Criminology and Forensic Science (MHA), Delhi on deputation basis in the Pay Band of Rs. 9300-34800 (PB:2) with Grade Pay of Rs. 4600/- initially for a period of three years with effect from the forenoon of 21st October, 2014. The deputation period can be extended or curtailed in the public interest depending upon the administrative convenience.

2. While on deputation the pay of Shri Nikunj Kumar will be regulated in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Department of Personnel & Training) OM No 6/8/2009-Estt. (Pay. II) dated 17.6.2010.

3. This issues with the approval of Director – LNJN NICFS.

DEEPA PANDE
Administrative Officer

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi – 110003, the 7th November 2014

No. O.II-4006/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Sunitha B, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 29-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M C PANWAR
DIG (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT),
RAJASTHAN

Jaipur, the 7th November 2014

No.: Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/122/2014—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name :—

Shri Daya Ram Yadav	Retired on superannuation wef. 31.10.2014 (AN)
Senior Audit Officer	

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT),
RAJASTHAN

Jaipur, the 7th November 2014

No.: Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/60/2014—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name :—

Shri Naresh Kumar Jain	Retired on superannuation wef. 31.10.2014 (AN)
Senior Audit Officer	

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) AHMEDABAD BRANCH OFFICE RAJASTHAN

Jaipur, the 7th November 2014

No.: Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/124/2014-15—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name :—

Shri Gouri Shankar Sharma	Retired on superannuation wef. 31.10.2014 (AN)
Senior Audit Officer	

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Director

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)

KERALA

Thiruvananthapuram, the 11th November 2014

No. OE(E&C)/EIV/8/14-15—

Sl No	Name	Designation	Date of retirement
1	Smt. Vijayalekshmi N	Senior Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.10.2014 (Superannuation)
2	Smt. Sudha M	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	31.10.2014 (Superannuation)

Sd./- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata – 700 016, the 27th October 2014

No. A-32013/JD(P&A)/DPC/2014-15/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Smt. Silian Nongkynrih(ST), Deputy Director (P&A) (Group “A”), Geological Survey of India on promotion to the post of Joint Director (P&A) (Group “A”) on regular basis on pay according to rules in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in the same Department with effect from 19.09.2014 (AN) until further orders.

S. DAS ROY
Deputy Director (P&A)
for Director General

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 17th October 2014

No. A-19024/2/2012-A.I— On attaining the age of superannuation, Shri K.P. Agarwal, Senior Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Jaipur has retired from Government service with effect from 30th September, 2014 (AN).

URAVASHEE KUMAR
Under Secretary

The 20th October 2014

No. A-19024/4/2013-A.I—On attaining the age of superannuation, Shri K. Mani, Senior Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Chennai has retired from Government service with effect from 30th September, 2014 (AN).

URAVASHEE KUMAR
Under Secretary

The 13th November 2014

No. A-19024/5/2013-A.I— On attaining the age of superannuation, Shri V. B. Saxena, Senior Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Central Agmark Laboratory, Nagpur has retired from Government service with effect from 30th September, 2014 (afternoon).

URAVASHEE KUMAR
Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai - 400 001, the 14th October 2014

No. 6(2672)/2014-Adm/12928—Additional Secretary, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Sunil S. Mhatre, Assistant Accountant (Pay Band Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4600), DPS, Mumbai, as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/-, in IIW, DAE, Mumbai with effect from the forenoon of 14th August, 2014.

2. Shri Sunil S. Mhatre will be on probation for a period of one year with effect from 14th August, 2014.

K. P. S. PILLAI
Under Secretary

The 22nd October 2014

No. 6(2678)/2014-Adm/13300—The President is pleased to appoint Smt. Nisha Singh, IAS (HP:1987) as Joint Secretary in the Department of Atomic Energy, Branch Secretariat, New Delhi, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/- from the forenoon of 26th September, 2014 to 27.04.2016 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI
Under Secretary

No. 6(2679)/2014-Adm/13301—The President is pleased to appoint Shri R.A. Rajeev, IAS (MH: 1987) as Joint Secretary (Finance) in the Department of Atomic Energy, Mumbai, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 1st October, 2014 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI
Under Secretary

BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400703, the 8th November 2014

No. BRIT/9/17(3)/2014/108—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay Rs. 8,700/- in the same Unit with effect from the forenoon of July 01, 2014 until further orders :—

1. Shri Chandrasekhar Ambadas Kherodkar
2. Smt. Geetha Rajagopalan
3. Dr. (Smt.) Kiran Sunil Mehra
4. Dr. (Smt.) Shubhangi Manoj Mirapurkar
5. Dr. (Smt.) Vrinda Prashant Chouthkanthiwar
6. Smt. Chanda Arjun
7. Shri Jacob Sebastian
8. Dr. (Smt.) Yojana Singh
9. Dr. Anupam Mathur
10. Shri Rajesh Kumar

P. RAMAKRISHNAN
Chief Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 17th July 2014

No. NFC/ADM/PEN/03/05/001—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers belonging to Group 'A' of the Department of Atomic Energy, Nuclear Fuel Complex in a substantive capacity in the post and with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	EC No.	Name (Shri/Smt/Kum)	Designation	Date of confirmation
1	6922	N Bheema	SO/C	01/10/2007
2	7045	G Samyuktha	SO/C	01/10/2010
3	6943	Bhattacharjee Indranil	SO/C	01/10/2011
4	6945	Vikrnat Raizada	SO/C	01/10/2011
5	6944	V Shashidhar Goud	SO/C	01/10/2011
6	6937	M Chaitanya Reddy	SO/C	01/10/2011
7	6940	V Sai Prasanth	SO/C	01/10/2011
8	6934	S Harjyoth Kaur	SO/C	01/10/2011
9	6840	Abhinav Chaturvedi	SO/D	01/10/2011
10	6936	N Harsha	SO/C	01/10/2011
11	6933	K Gayathri	SO/C	01/10/2011
12	7021	P V Bharat Prasad	SO/C	01/04/2012
13	7055	M Anil Kumar Reddy	SO/C	01/10/2012
14	7058	Bipattaran Halder	SO/C	01/10/2012
15	7177	Shehnaz Bano	SO/C	01/10/2012
16	7067	Roli Pandey	SO/C	01/10/2012
17	7066	Ashutosh Shivhare	SO/C	01/10/2012
18	7065	Gajendra Mewara	SO/C	01/10/2012
19	7064	Toshi Gupta	SO/C	01/10/2012
20	7063	Prashant Kumar U	SO/C	01/10/2012
21	7062	Rohitashava Sharma	SO/C	01/10/2012
22	7061	Arun Anand	SO/C	01/10/2012
23	7056	Sravani Chitluri	SO/C	01/10/2012
24	7060	A V Krishna	SO/C	01/10/2012
25	7059	Raman Kumar	SO/C	01/10/2012
26	7180	Stuthi Keerthi Patel	SO/C	01/10/2013
27	7188	Manoj Dattatray Mhetar	SO/C	01/10/2013
28	7189	B Rajendra	SO/C	01/10/2013
29	7191	Yogendra Pratap Yadav	SO/C	01/10/2013
30	7190	Satyadeep	SO/C	01/10/2013
31	7179	Manju Murali	SO/C	01/10/2013
32	7183	Atul Singh	SO/C	01/10/2013

Sl. No.	EC No.	Name (Shri/Smt/Kum)	Designation	Date of confirmation
33	7184	Ankit Agarwal	SO/C	01/10/2013
34	7182	Chaitanya V N S K	SO/C	01/10/2013
35	7181	Gaurav Kumar Vashistha	SO/C	01/10/2013
36	7187	K Shireesha	SO/C	01/10/2013
37	7185	Shivangi Agarwal	SO/C	01/10/2013
38	7186	Shibashankar Das	SO/C	01/10/2013

K. RAMESH
Administrative Officer (E&P)

Hyderabad - 500 062, the 5th November 2014

No. NFC/PAR.II/Prom.14/—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' to the grade of Scientific Officer / Engineer 'F' in the Pay Band Rs. 37,400–67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad with effect from 01.07.2014 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)
1.	A.V.V.S. Swamy
2.	T. Srinivasa Rao
3.	K. Mahesh Babu
4.	Y. Sanyasi Raju
5.	D. Srinivas
6.	M. Nedunchelian
7.	Gourahari Das
8.	Amaresh Mukund Parsodkar
9.	Kumar Vaibhaw
10.	Vinayak Mohaniraj Kannao
11.	G. Brahmananda Reddy
12.	Narendra Nerpagar
13.	N. Sabhapathi
14.	Jeetendra Bhavrani

A. JAYAKRISHNA
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 12th November 2014

No. LC/560(5)/4755—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :—

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	MNB HOSPITALITY PARTNER PRIVATE LIMITED	U15122UP2013PTC056982	C16109530
2	THREESTAR INFO SALES PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC039312	C17285461
3	KRS MEDIA SOLUTION PRIVATE LIMITED	U93030UP2012PTC048692	C17980863
4	MAA FINMART PRIVATE LIMITED	U74120UP2010PTC043029	C17999079
5	SHRI KAILA NIRMAN PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046050	C18065102
6	SHARVIL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC044552	C18066324
7	CARBON PASTE LIMITED	U24111UP1975PLC004192	C18523803
8	PRIME POLYFAB PRIVATE LIMITED	U17291UP2011PTC045555	C18773945
9	AMOGH TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74992UP2009PTC038879	C18828541
10	PANOPTIC CONSTRUCTION & INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC052065	C18880609
11	RINETEC SYNERGIES PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058277	C18913574
12	APEX MERCANTILE BUSINESS PRIVATE LIMITED	U51396UP1998PTC023609	C18995753
13	SAIBER HOMES INDIA PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058057	C19229327
14	GLOBE INFRAZONE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC051365	C19321405
15	ASTRAL INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046332	C19321488
16	SHREE SEWAK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74999UP2006PTC032080	C19383132
17	HITECH INFRAENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC046370	C19462282
18	VOLEX SOFTECH PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC057472	C19498989
19	AXIS TECHSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2009PTC038491	C19575323
20	SUNESIS FOODS PRIVATE LIMITED	U15122UP2012PTC051723	C19632793
21	RIGEL MICROSYS PRIVATE LIMITED	U72900UP2003PTC027230	C19890250
22	NEURON SOFTSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC056882	C19975572
23	OMEX LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U60231UP2012PTC049631	C20002341
24	SHIVA WINES PRIVATE LIMITED	U15122UP2011PTC046439	C20152484
25	KAYATRIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC048063	C20297263
26	A.P.PAN PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U16000UP2008PTC034717	C20445193
27	SHRI BANKEY BIHARI BREAD & BAKERY PRIVATE LIMITED	U15122UP2011PTC046621	C20494951
28	TRIVOLI BANQUETS & GARDENS PRIVATE LIMITED	U55204UP2013PTC059820	C20561452

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
29	RADIANT NET SOLUTION PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC047668	C20764320
30	SHREE BALAJI LEAD ALLOYS AND PIGMENTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC054222	C20865937
31	BIRMA BEVERAGES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U15122UP2011PTC046053	C20920245
32	XTRACARE SECURITY & FIRE SOLUTION PRIVATE LIMITED	U93030UP2011PTC044206	C20947768
33	KASHI AYURVEDIC PRIVATE LIMITED	U33119UP2009PTC037233	C21050257
34	REAL INDIA HOUSING PROJECT LIMITED	U45201UP2013PLC060340	C21217435
35	PRATHAM PRINTVENTURES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC048912	C21346069
36	SUPERPOLY PLAST PRIVATE LIMITED	U25209UP1969PTC003277	C21613385
37	INANDI MALT WHISKY COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U52208UP2009PTC037622	C21843396

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 12th November 2014

No. LC/560(5)/4756—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :—

Sl No.	COMPANY NAME	CIN NO.
1	NAUGARIA AGRO FORESTRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U01122UP2004PTC028903
2	MUGAL PLASTERS PRIVATE LIMITED	U26952UP2004PTC028892
3	SHREE PRAGYA BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028893
4	GREEN WITCH EXPORTS PRIVATE LIMITED	U19123UP2004PTC028894
5	ADINATH HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U85110UP2004PTC028891
6	PEARL INDIA INFOWARE PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028890
7	LIFE VISION SALES AND DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028882
8	SATYAM SHIVAM SUNDARAM FABRICATORS PRIVATE LIMITED	U26964UP2004PTC028869
9	ZWITTER PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028875
10	4 DIMENSIONS TRAVEL (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63040UP2004PTC028863
11	PUSHPLATA ICE AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	U63022UP2004PTC028868
12	SISODIA INVERT SUGAR PRIVATE LIMITED	U15421UP2004PTC028854

Sl No.	COMPANY NAME	CIN NO.
13	RISHIPOOJA ENERGY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U29119UP2004PTC028846
14	PARSHIV PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028843
15	ZEEMIQ PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028838
16	KALANCHAL FILMS AND MUSIC COMPANY PRIVATE LIMITED	U92114UP2004PTC028823
17	D R P S PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP2004PTC028820
18	DREAMWORLD E-SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028821
19	CORAL MACKEREL MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028810
20	UDAY MARKFIN SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028812
21	GREENHOUSE BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028813
22	SUHIMI CONSULTANCIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140UP2004PTC028809
23	NLG CHEMICALS CO PRIVATE LIMITED	U51434UP2004PTC028796
24	DAWN SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028792
25	SUPER DATA PROCESSOR PRIVATE LIMITED	U80221UP2004PTC028795
26	SWARNIM SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028788
27	AL-MIZAN FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED	U15139UP2004PTC028791
28	SHYAMA LIFELINE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028782
29	IMAGINATION EDUCATION CENTRE PRIVATE LIMITED	U80211UP2004PTC028777
30	S.S.PETRONET OILS AND GAS SERVICES PRIVATE LIMITED	U51410UP2004PTC028753
31	D B S SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028747
32	NAVGRAH BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028748
33	PRACTICAL MERCANTILE CO PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028733
34	VISHAMBHER ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U10102UP2004PTC028728
35	SHRI SHOBHA RAM FOODS PRIVATE LIMITED	U15135UP2004PTC028719
36	INDOO INFOCOM PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028584
37	SAPTARISHI MERCANTILE SALES PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028714
38	SUSHTI INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U66030UP2004PTC028716
39	NEW SUM MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028718
40	NEELKAMAL HITECH TRADING PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028709
41	ARYANS MERCANTILE SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028704
42	MICRO INFOSYS COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80302UP2004PTC028701
43	GANPATI ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92141UP2004PTC028682
44	SWARNISHA MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028680
45	REXIMED PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028678
46	KUNICA MARKETING PRIVATE LIMITED	U52334UP2004PTC028666
47	KRIPA SHANKAR BUILDERS PRIVATE LIMITED	U51432UP2004PTC028639

Sl No.	COMPANY NAME	CIN NO.
48	SUKRITI FINCON PRIVATE LIMITED	U65922UP2004PTC028641
49	ASHNA CERAMICS PRIVATE LIMITED	U26914UP2004PTC028644
50	ARISING FUTURE IN SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028636
51	DIAMONDPRISM AGROTECH PRIVATE LIMITED	U02001UP2004PTC028637
52	CAMERA EYE FILM DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED	U92112UP2004PTC028631
53	ALOK HOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028632
54	SHANTI ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74300UP2004PTC028620
55	SEVEN STAR CONCEPTS SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028571
56	AASRA ASSOCIATE SALES PRIVATE LIMITED	U29308UP2004PTC028573
57	AMRIT HERBALS PRIVATE LIMITED	U24233UP2004PTC028578
58	IDEAL CIRCULATION WAY MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028534
59	REBRU BRUSH COMPANY PRIVATE LIMITED	U24229UP2004PTC028536
60	GATI PETROLIUM PRIVATE LIMITED	U50500UP2004PTC028541
61	BHARGO SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120UP2004PTC028517
62	MAURYA'S MARKETING PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028521
63	RESOMATRIX PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U74130UP2004PTC028522
64	ASHU HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028526
65	VIJETTA SALES PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028512
66	SALSONS CHIT FUND PRIVATE LIMITED	U65992UP2004PTC028514
67	SHREE HARDOI BALAJI FUELS PRIVATE LIMITED	U10101UP2004PTC028504
68	ASHISH VED NAMAN TRADERS PRIVATE LIMITED	U50500UP2004PTC028500
69	SATYAM-SHIVAM-SUNDRAM SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028501
70	VAISHNO SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UP2004PTC028498
71	GOLDENWAY MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028484
72	VIJMAN MARKETTING PRIVATE LIMITED	U51109UP2004PTC028477
73	ANKUIES PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028460
74	SHRIRAM TECHNO BEARINGS PRIVATE LIMITED	U27108UP2004PTC028434
75	CAREER PROFESSIONAL TRAINING NETWORK PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028427
76	AMBA MULTI MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028418
77	PRAGYA FILMS PRIVATE LIMITED	U92111UP2004PTC028419
78	MIRROR TRAVELS & TOURS PRIVATE LIMITED	U63040UP2004PTC028411
79	PRINCE CASTING PRIVATE LIMITED	U27104UP2004PTC028400
80	GANGA OXYGEN PRIVATE LIMITED	U23201UP2004PTC028396

Sl No.	COMPANY NAME	CIN NO.
81	HAMARA SAMRADH JEEVAN SALES PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028387
82	DOLLAR STEELS PRIVATE LIMITED	U27104UP2004PTC028384
83	VARSHNEY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028373
84	SUKHBASI LAL MISRI LAL TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17212UP2004PTC028369
85	USHA INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2004PTC028370
86	SKYLAB COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED	U72900UP2004PTC028346
87	JANKI TOURISM INDIA PRIVATE LIMITED	U63040UP2004PTC028347
88	SHRI SHARE PANDIT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U67190UP2004PTC028348
89	DHAMAKA INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028349
90	CONSORTIUM PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028339
91	TRISAM HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028343
92	EYE-SIGHT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92113UP2004PTC028334
93	INFO VEIN SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900UP2004PTC028330
94	CDS CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP2004PTC028320
95	SICHUAN SILK PRIVATE LIMITED	U67120UP2004PTC028327
96	J.M.STEEL AND ALLOYS PRIVATE LIMITED	U27104UP2004PTC028315
97	RAVI PUMPS AND GENERATORS PRIVATE LIMITED	U29119UP2004PTC028310
98	SUN CREDIT SOLUTION PRIVATE LIMITED	U65192UP2004PTC028313
99	KANPUR PUBLICATION HOUSE PRIVATE LIMITED	U22212UP2004PTC028305
100	S M S PROTECTION AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74920UP2004PTC028302
101	RAJESH MASALA PRIVATE LIMITED	U15495UP2004PTC028300
102	NATURAL SALES CONCEPT PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028291
103	SWYAM SIDDHA INVESTSOLUTION PRIVATE LIMITED	U67200UP2004PTC028283
104	CDS MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028275
105	TELESIA CHEM AND FOODS INDIA PRIVATE LIMITED	U51229UP2004PTC028265
106	DREAM WIN MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2004PTC028256
107	R.S.M.HOSPITAL PRIVATE LIMITED	U85110UP2004PTC028254
108	J AND J CITY CLUBS PRIVATE LIMITED	U55201UP2004PTC028246
109	THE INURE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028240
110	GENIOUS MARKETING PRIVATE LIMITED	U51399UP2004PTC028228
111	I-SPY MARKETTING PRIVATE LIMITED	U72200UP2004PTC028229
112	GHANSHYAM MERCENTILE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028096
113	NORTHERN ACADAMY OF HIGHER EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80301UP2004PTC028224

Sl No.	COMPANY NAME	CIN NO.
114	GLOSS-CB LABS PRIVATE LIMITED	U51397UP2004PTC028214
115	INTERGLOBE AVIATION PRIVATE LIMITED	U62100UP2004PTC028212
116	NABI KAREEM BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028207
117	PRABHU DAYAL AND BROS. BIOCHEM PRIVATE LIMITED	U24232UP2004PTC028203
118	GAURAV AND GAUREESH ASSOCIATES (MARKETING) PRIVATE LIMITED	U19116UP2004PTC028197
119	BHAWANI REALTORS-AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2004PTC028192
120	MADHUR INDIA DETECTIVES PRIVATE LIMITED	U74920UP2004PTC028184
121	FRIENDS AMBITION TRADING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028182
122	KUDOS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24232UP2003PTC028179
123	FARMER'S DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U72200UP2003PTC028169
124	ORIGIN SOFTECH PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028165
125	B R TYRES PRIVATE LIMITED	U25112UP2003PTC028157
126	MASTERMIND PROTECTION GUARD (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74920UP2006PTC031819
127	ARESH AGRO FOODS PRIVATE LIMITED	U51229UP2003PTC028144
128	MAHADEO PUBLISHERS & STATIONERS PRIVATE LIMITED	U22122UP2003PTC028145
129	EXCEL INFOWARE PRIVATE LIMITED	U72900UP2003PTC028131
130	KLT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U18101UP2003PTC028133
131	GOLDEN CHANCE SALES AND MARKETTING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028119
132	INSTA CORE MARKETING PRIVATE LIMITED	U65999UP2003PTC028122
133	NAKUR MARKETING PRIVATE LIMITED	U74959UP2003PTC028114
134	CAPSTONE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028115
135	N.U.BRIGHT SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028110
136	CATALYST ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74110UP2003PTC028111
137	GUPPANI AGRO INDIA PRIVATE LIMITED	U15499UP2003PTC028113
138	APNA KHUSHHAL BAZAR MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028097
139	DEVVANSI MARKETING AND ADVERTISING PRIVATE LIMITED	U74999UP2003PTC028098
140	DEBONAIR KIDS INDIA PRIVATE LIMITED	U95000UP2003PTC028099
141	INDIWAY MARKETING PRIVATE LIMITED	U51397UP2003PTC028087
142	OSHEL ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U31300UP2003PTC028083
143	S.G.R.MARKETING PRIVATE LIMITED	U52322UP2003PTC028075

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208002, the 14th November 2014

No.LC/560(3)/UK/597—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one months from the date the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved :—

Sr No.	Name of the Company	CIN No.	SRN No.
1	BISDO INFOTECH PRIVATE LIMITED	U74999UR2011PTC000003	C29643350
2	SANJAY HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U85100UR2010PTC033165	C30450191
3	MUSSOORIE NATURE CLUB PRIVATE LIMITED	U93000UR2012PTC000126	C30803928
4	ANUJA SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UR2009PTC032779	C31643794
5	PARVATANCHAL MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED	U74900UR2009PTC033018	C31840069

S. P. KUMAR

Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
Attached to High Court, Nainital, Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 12th November 2014

No. ROC/WB/FTE/560/2014—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 4 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U64204WB2012PTC175930	MICHNICQUE & JR INFOCOM PRIVATE LIMITED
2	U51109WB1994PTC064523	MOHTA CHEMOPLAST PVT LTD
3	U24132WB2011PTC161186	SHREEJI OXIDES PRIVATE LIMITED
4	U45400WB2013PTC195537	HENLEY CONSTRUCTION AND CONCRETE PRIVATE LIMITED

SAURABH GAUTAM

Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry – 605 011, the 12th November 2014

No. 3(161) / 2014 – Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	2633	M/s. R + J Endeavors Private Limited
2.	2453	M/s. Samiks Nutrasciences Private Limited
3.	2520	M/s. Eye Opener Creations Private Limited

C. M. KARL MARX

Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 10th November 2014

No. 3726 to 94302/560(5)/FTE-2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

S. No.	Company Number	Name of the Company
1	3726	MADRAS PHOSPHATE MANUFACTURERS LTD
2	10031	RAPICON EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
3	10853	VANBEY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
4	12355	VANBEY PRINTING AND PUBLISHING P LTD
5	13142	TARKESH VEECUMSEE JEWELLERY AND GEMS EXPORTS PRIVATE LIMITED
6	13474	S.M.C.S.LTD.
7	16474	MEDIPLANTS PRIVATE LIMITED
8	16536	BALAJI RECLAIMS PRIVATE LIMITED
9	17898	JEYPORE SUGAR FINANCE AND INVESTMENT CORPORATION LIMITED
10	19733	TUFLITE GLASS PRIVATE LIMITED
11	20088	FOUNTAIN CONSUMER APPLIANCES LIMITED
12	20138	KALI SRP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
13	20704	HIRUSAH COSMETICS PRIVATE LIMITED
14	22216	CENTUM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
15	22593	ARASI EXPORTS PRIVATE LIMITED
16	23372	VEE YAR MINERALS PRIVATE LIMITED
17	25040	BUILDING MATERIALS & EQUIPMENTS INDIA LTD
18	25041	ELECTRONICS & COMPUTERS INDIA LTD
19	25623	GARDENER LANDSCAPE PRIVATE LIMITED
20	26397	GRAFINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
21	27142	FLORENTIA FASHIONS LIMITED
22	28659	AGS IRRIGATIONS PRIVATE LIMITED
23	28670	RAJ KRISHNA PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
24	28914	DHANALAXMI AMUSEMENTS & HEALTH SERVICES LIMITED
25	29301	DHANALAXMI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
26	29954	ABHIDIV INVESTMENTS & SECURITIES PRIVATE LIMITED
27	30291	CORMAN SYNERGY SERVICES PRIVATE LIMITED
28	30918	EMCORP FINANCE LIMITED
29	31134	ASHIKA LEATHERS PRIVATE LIMITED
30	32398	SRINETHI TEXTILES PRIVATE LIMITED
31	33150	JEEZ IMPEX PRIVATE LIMITED
32	33433	ORANGE SECURITIES PRIVATE LIMITED
33	34684	MADRAS COATINGS PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
34	34792	G V N FARMS P LTD
35	35303	SRI SAI SERVICED APARTMENTS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
36	36663	EKANTHAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
37	36922	VOICEWARE SYSTEMS LIMITED
38	37108	HARIHAR ORCHARDS PRIVATE LIMITED
39	37457	TARGET CASE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
40	37693	BAFNA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
41	38125	DHAMODHARAN FABRIC PRIVATE LIMITED
42	38340	BRIGHT ENGINEERING (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
43	38451	AMIRTH & JAY BUILDERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
44	39814	INNOVISION SOFTTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
45	40607	GNG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
46	41205	BOOM TRADING PRIVATE LIMITED
47	41359	REEDA MARINE PRIVATE LIMITED
48	41828	ADVANCED COMFORT ELECTRONIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
49	41831	SHARAVANA TANNING COMPANY PRIVATE LIMITED
50	42069	AFFINITY GRANITES & MARBLES PRIVATE LIMITED
51	42555	JUSTICE HOLDING PRIVATE LIMITED
52	42687	SRI VIDHYA ELECTRICAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED
53	42849	MILLENIUM LINE PRIVATE LIMITED
54	43199	PHONCARD COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
55	43296	JOBS DB INDIA PRIVATE LIMITED
56	43329	S.V.R. FARMS LIMITED
57	43362	ACCESS INTERNET SHOP INDIA PRIVATE LIMITED
58	43507	J.L IMPEX PRIVATE LIMITED
59	44452	CS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
60	45120	SAMCO SOFT LIMITED
61	45191	BUSINESSORIENTED SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
62	46749	WOODPLY (INDIA) PRIVATE LIMITED
63	47283	WAVES SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
64	47739	PERFECT STITCH GARMENTS PRIVATE LIMITED
65	48236	IMAGINE (INDIA) SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
66	49052	MINTAKA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
67	49061	MUSTANG CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
68	49456	SARAVANA STORES PRIVATE LIMITED
69	49747	SOUTHERN GRAINS INDIA PRIVATE LIMITED
70	49748	R S R BEST COMMODITIES PRIVATE LIMITED
71	49918	DUCKER RESEARCH INDIA PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
72	50088	APOLLO TEXTILES PRIVATE LIMITED
73	50133	BIOTECH EQUIPMENTS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
74	50299	TMG AGRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
75	50352	SEA EXPRESS LINES PRIVATE LIMITED
76	50812	ALANKAR COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
77	50999	SREE MAHAMEHRU LOGISTICS PRIVATE LIMITED
78	51051	AL-FALAH DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
79	51077	M VEE G FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
80	51108	ESES COMBINES ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED
81	51210	FUSION FOOD CONCEPTS PRIVATE LIMITED
82	51409	ALLIED HYGIENE & LIFESTYLE PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
83	51842	DEL-WON ESTATES PRIVATE LIMITED
84	51919	TAL PRECISION PARTS LIMITED
85	52011	HI-TRANS INDIA CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
86	52012	GOSPEL BOOK ROOM PRIVATE LIMITED
87	52252	BAY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
88	52320	INTEGRATED DOCUMENTATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
89	52433	AL MAHA JEWELLERS PRIVATE LIMITED
90	52585	REAL NET SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
91	52979	SINGANALLUR HERITAGE HOUSE PRIVATE LIMITED
92	53617	KREYA INFOSYS PRIVATE LIMITED
93	53813	CINEMA PARADISO INDIA PRIVATE LIMITED
94	53848	AGS HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
95	54195	SNAP SCRIBE INDIA PRIVATE LIMITED
96	54313	BANDVALLEY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
97	54421	SOFTREND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
98	54541	KITSOFT CONSULTANT PRIVATE LIMITED
99	54721	A.R. WELD TECH PRIVATE LIMITED
100	55262	FOOT PRINT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
101	55534	ERICA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
102	55650	INDIMET MANUFACTURING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
103	55720	EFOCUS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
104	55731	PEGASUS TELECOM SERVICES PRIVATE LIMITED
105	55888	HILLTOWN SUPER MARKET PRIVATE LIMITED
106	55913	ARIES SHARES AND STOCKS PRIVATE LIMITED
107	56190	RIBRAN PROMOTERS PRIVATE LIMITED
108	56209	APR BROTHERS IMPEX PRIVATE LIMITED
109	56302	VIKRAM HARIIE ASSOCIATES AND SERVICES PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
110	56900	TULIP AROMATICS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
111	56934	ACS AUTOPARTS PRIVATE LIMITED
112	57047	GRACE FARMS PRIVATE LIMITED
113	57305	DHIMAT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
114	57572	OTEX CARGO PRIVATE LIMITED
115	57578	TERRA SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
116	57668	OPERON BIOTECH PRIVATE LIMITED
117	58017	HARI SAI REALTIES PRIVATE LIMITED
118	58057	A P K TRANSPORT PRIVATE LIMITED
119	58223	SKYLAND FARMS & RESORTS LIMITED
120	58301	PALMA ANALYTICS INDIA PRIVATE LIMITED
121	58467	TEXTILE INDIA FASHION MALL PRIVATE LIMITED
122	58514	CREWIND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
123	58643	T M ORTHOPEDICS PRIVATE LIMITED
124	58814	EDELWEISS RESORTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED
125	59004	TEL IC MULTIMEDIA ADVERTISING SERVICES PRIVATE LIMITED
126	59076	HONEY BEE PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
127	59247	MAGNETRON TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
128	59338	IIPE SERVICES PRIVATE LIMITED
129	59555	A.L.R.K INTERIORS PRIVATE LIMITED
130	59670	V C FLAVOURS PRIVATE LIMITED
131	59689	VENCUT COMPONENTS PRIVATE LIMITED
132	59745	VISWAS INTERNATIONAL JEWELLERY PRIVATE LIMITED
133	59838	TAMILNADU WIND POWER PRIVATE LIMITED
134	60319	ARANTHANGI CHEMICALS (UNIT-II) PRIVATE LIMITED
135	60334	R SQUARE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
136	60545	SRI PARASAKTHI TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
137	60547	GOLD CREST HOUSING PRIVATE LIMITED
138	61443	ZEDNA LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED
139	61565	GM-CHEMRUB IMPEX PRIVATE LIMITED
140	61639	SHALOM ABRASIVES PRIVATE LIMITED
141	61873	E-VOLVE MAX SERVICES PRIVATE LIMITED
142	61989	JETZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
143	62076	TRANSGREENS FARMING PRIVATE LIMITED
144	62169	SUNMARK ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
145	62502	ONE O ONE FREEMART PRIVATE LIMITED
146	62547	JEPPIAAR PEACELAND PRIVATE LIMITED
147	62648	PYRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
148	62687	ZEN ECO STRUCTURES PRIVATE LIMITED
149	62775	ANEKAR SALTS PRIVATE LIMITED
150	62800	ARMAVEN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
151	62846	MAESTRO HOME NEEDZ PRIVATE LIMITED
152	63105	TIGON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
153	63164	OMNIQUITY CONSULTING PRIVATE LIMITED
154	63560	RAAASI HOMES PRIVATE LIMITED
155	63585	ASSOCIATED WEB HOLDINGS PRIVATE LIMITED
156	63695	NEETHI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
157	63965	SRC SPINNERS PRIVATE LIMITED
158	64455	NIVAS FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
159	64456	NIVAS INFRA PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
160	64567	L 'MAN SCHOOL OF MOTORING PRIVATE LIMITED
161	64583	BLACKSMITH MACHINING COMPANY PRIVATE LIMITED
162	64642	RAYALA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
163	64695	EAN ENGINEERING AND ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
164	64783	SUSAHAG ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
165	64857	ZENATH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
166	65024	ATE CONTROL SOLUTION PRIVATE LIMITED
167	65425	AADYANA LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
168	65624	CENTRAL TOWER HOSPITALITY SERVICES (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
169	65894	MKS IT DROME PRIVATE LIMITED
170	65904	SRI VISAKAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
171	65936	MAP ESTATES PRIVATE LIMITED
172	65963	BLUEJUNE INFOTECH PRIVATE LIMITED
173	66099	EUNARIS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
174	66178	PRIDE BPO PRIVATE LIMITED
175	66326	MAPE INFRASTRUCTURE PROJECTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
176	66388	SAMPRO IMPEX PRIVATE LIMITED
177	66454	TRICEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
178	66544	PARMAR FOREX PRIVATE LIMITED
179	66566	L&T SIRUSERI PROPERTY DEVELOPERS LIMITED
180	66602	ETA STAR WESTERN AUTO PARTS CENTRE PRIVATE LIMITED
181	66707	NEWRITE FOUNDATION INDIA PRIVATE LIMITED
182	67026	INTELLIWORKS EDUCATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
183	67333	KEYTECH ENERGY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
184	67442	SARASWATHI SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
185	67520	SHUBHAN MEDICALS PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
186	67797	REST LAND ACCOMODATION PRIVATE LIMITED
187	67814	TRI INPHARMEX SERVICES PRIVATE LIMITED
188	67819	QMG MINERALS PRIVATE LIMITED
189	67877	SREE JOTHI CEMENTS LIMITED
190	67972	HRC FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
191	68186	CS ESTATES AND VENTURES PRIVATE LIMITED
192	68294	NUMERIC SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
193	68348	REDEVE TECHNOLOGY CONSULTING PRIVATE LIMITED
194	68350	HOTEL MEMPHIS PRIVATE LIMITED
195	68357	CANTON FMCG & EXIMS PRIVATE LIMITED
196	68467	MIRRA INFOWAY PRIVATE LIMITED
197	68525	AKSID SOFT PRIVATE LIMITED
198	68553	SREE JAYAJOTHI INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
199	68638	A.R.TELECOM PRIVATE LIMITED
200	68711	CAREBEACON PRIVATE LIMITED
201	68714	ZDAROVIE MEDICA PRIVATE LIMITED
202	63874	STARLAB SCIENTIFIC INDIA PRIVATE LIMITED
203	68753	CORPTECH SOFT SERVICES PRIVATE LIMITED
204	68939	GREEN SHAKTHIM ENGINEERS PRIVATE LIMITED
205	69053	SEKAR ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
206	69230	NEW EDITION COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
207	69411	ETHIROLI NEWSPAPER PRIVATE LIMITED
208	69441	SMART GREEN POWER PRIVATE LIMITED
209	69527	ZEPHYR WIND ENERGY PRIVATE LIMITED
210	69535	AURO MIRA BIOMASS PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
211	69542	SWASTIK & KAUSIK BUILDINGS PRIVATE LIMITED
212	69544	AURO MIRA BIOMASS ENERGIES PRIVATE LIMITED
213	69550	TECHNOFAB MANUFACTURING (CHENNAI) LIMITED
214	69686	KHIVRAJ WIND FARMS PRIVATE LIMITED
215	69705	IMAGE FUSION INFOTECH PRIVATE LIMITED
216	69726	AURO MIRA PLANTATION FARMS COMPANY PRIVATE LIMITED
217	69854	WESTERN AUTO RACE PRIVATE LIMITED
218	69928	CLIN REACH RESEARCH PRIVATE LIMITED
219	70209	RVA BUSINESS PRIVATE LIMITED
220	70362	QUENCH TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
221	70372	INDRAKSHI PHARMA PRIVATE LIMITED
222	70423	FRESHWAY FOODS PRIVATE LIMITED
223	70631	ADITI INFRATEC PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
224	70767	DNR SHIPPING PRIVATE LIMITED
225	70786	THIRUKKUALAI ENERGY PRIVATE LIMITED
226	71154	ALPHA MEDICLAIM TPA PRIVATE LIMITED
227	71252	E-KARDZ SERVICES & SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
228	71362	KINBAHN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
229	71370	SK LATEX PRIVATE LIMITED
230	71689	BINNY CFS LIMITED
231	71806	EMERGE INVESTMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
232	71817	ARTHA42 INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
233	71835	SCOS LIGHTING PRIVATE LIMITED
234	72214	HRCL PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
235	72347	AVANI IMAGINATION ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
236	73048	MASTODON INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
237	73124	NETOONS STUDIO (INDIA) PRIVATE LIMITED
238	73135	EUPHORIC LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
239	73348	INASPIR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
240	73537	RUKMAT ENERGY PRIVATE LIMITED
241	73625	CFI TONERS PRIVATE LIMITED
242	73726	SWAPNA MITHRA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
243	74042	LBA ALUMINIUM (INDIA) PRIVATE LIMITED
244	74058	SILVER TALENT MANAGEMENT & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
245	74236	SIDDHARTHA HOLISTIC HEALING PRIVATE LIMITED
246	74534	ALFEX TRADING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
247	74639	SARCC INFRATECH PRIVATE LIMITED
248	74929	CHEMSTAR CHEMICALS AND INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
249	75000	TEC CALIBER IT SERVICES PRIVATE LIMITED
250	75206	V-INFINIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
251	75509	CHIMERA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
252	75544	VAJRA RE- ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
253	75645	ARBELLA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
254	75717	YANTRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
255	75940	DEVENDRA BAXAL PRIVATE LIMITED
256	75950	ADJ IMPEX PRIVATE LIMITED
257	75994	SRI AANDAL RANGAMANAR COIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
258	76277	CAPS ENGINEERS AND INTERIORS PRIVATE LIMITED
259	76430	CORONA CROPS PRIVATE LIMITED
260	76520	A.R. SCREEN PRIVATE LIMITED
261	76635	VCANC PROJECT INNOVATIONS PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
262	76758	VERZA VENTURES & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
263	76859	BAY LEAF PORTS PRIVATE LIMITED
264	76901	RAFFLES FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED
265	76910	SOFTEON GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
266	76973	JEPPIAAR PACKAGING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
267	77054	FORTUNE CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
268	77069	RHEMA PUBLISHING & MEDIA PRIVATE LIMITED
269	77171	SAP POWER PRIVATE LIMITED
270	77184	SUNVEL GREEN POWER PRIVATE LIMITED
271	77541	CHAKRA HOME CARE PRIVATE LIMITED
272	77681	BC BUILDINGS PRIVATE LIMITED
273	78226	POONAMALLEE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
274	78343	AVENIR ELECTRICAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
275	78742	GIFTEASY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
276	78745	RDIMENSIO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
277	78787	EKAA INTERIOR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
278	79090	JKV TECHNOLOGIES & CONSULTING PRIVATE LIMITED
279	79302	GEO INFRA ENGINEERING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
280	79324	HAUTE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
281	79514	BETA ENGINEERING CONSTRUCTIONS LIMITED
282	79602	DHARANA SOFTWARE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
283	79734	SARASWATHI BREEDERS PRIVATE LIMITED
284	80014	VITTHALA CONCRETE PRIVATE LIMITED
285	80144	BESSY ' S RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
286	80329	MICROCLOUD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
287	80376	SREE RAMANA FARM AND RESORTS PRIVATE LIMITED
288	80501	MSR DENTAL SURGERY PRIVATE LIMITED
289	80962	PRIME SNJ ENGINEERING AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
290	81075	3 DEGREES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
291	81198	GIC SIENET TECH PRIVATE LIMITED
292	81418	KRKM PROPERTIES PRIVATE LIMITED
293	81488	AGAM CREATIVE STUDIOS PRIVATE LIMITED
294	81577	KRYPTON ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
295	81613	SKY PEST CONTROL PRIVATE LIMITED
296	81974	AIDAS HEALTHCARE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
297	82066	CSA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
298	82935	BEST FIT CONSULTING PRIVATE LIMITED
299	83155	TEL LAB CONTROL PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
300	83396	ASHLAR REALTORS PRIVATE LIMITED
301	83500	CAT 2000 PRODUCTS PRIVATE LIMITED
302	83773	PROBUS INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
303	84065	EFFICSYS LOGISTECH PRIVATE LIMITED
304	84102	I-QUBE TECH PRIVATE LIMITED
305	84180	MEDBRIGADE HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED
306	84261	OJASH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
307	84423	SEVEN STAR GRANITES PRIVATE LIMITED
308	84436	SAROMA IMPORTS PRIVATE LIMITED
309	84569	NORTHERN TECHNO SURVEY PRIVATE LIMITED
310	84695	ISWASU TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
311	84706	VALLIKANDAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
312	85218	JY.R.P. RUBBER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
313	85307	CANOPUS CONSULTANTS & SURVEYORS PRIVATE LIMITED
314	85476	RAFFLES CAMPUS EDUCATION MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
315	85526	AAHIRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
316	85673	FIRST ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
317	85947	CORD MEDIA PRIVATE LIMITED
318	85972	ASAHITEC TRADING PRIVATE LIMITED
319	86185	TRAX MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
320	86289	EFFECTUAL TECHNOLOGY & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
321	86368	SANJEEVANSRI HERBS PRIVATE LIMITED
322	86472	DUNES INTERNATIONAL PROJECTS PRIVATE LIMITED
323	86644	REVA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
324	86672	OTC WELLNESS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
325	86686	D'ZINE DIGITAL MARKETMAKERS PRIVATE LIMITED
326	86793	CHENNAI IRON AND STEEL POWDERS LIMITED
327	87055	TT CARGO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
328	87150	MIYABI HOTELS PRIVATE LIMITED
329	87483	ICD FASHIONERS PRIVATE LIMITED
330	87517	BLACK MEADOWS HAIR REPLACEMENT PRIVATE LIMITED
331	87690	SYNTELLECT HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
332	87955	GEMS & MINERALS INDIA PRIVATE LIMITED
333	88305	UNICSS MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED
334	88454	VIOXY HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
335	88790	CAPELLA ADVISORY PRIVATE LIMITED
336	90223	COKE AND COAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
337	90225	FEDORA IMPEX PRIVATE LIMITED

S. No.	Company Number	Name of the Company
338	90245	MINE PROCESSING AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
339	90475	AAKASH SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED
340	91089	AAKASH MEDIA PRIVATE LIMITED
341	91817	YSS FINSERVE INDIA PRIVATE LIMITED
342	91910	RICH NATURE WAAY INDIA PRIVATE LIMITED
343	92331	YRS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
344	93270	VELOCIOUS NETWORKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
345	94302	KOMALA'S F & B PRIVATE LIMITED

K. LATHA PARIMALAVADANA
DEPUTY REGISTRAR OF COMPANIES
TAMILNADU

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in